

Amrit Corp. Ltd.

CIN: L15141UP1940PLC000946

ACL/CS/ January 22, 2022

BSE Ltd.,
The Department of Corporate Services,
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai-400 001.
(Fax: 022-2272 3121/2037)

Company Stock Code - 507525

Sub: Newspaper Publication dated 22.01.2022

Dear Sir,

Further to our letter dated 21.01.2022, we are enclosing herewith the photocopies of the newspaper clippings of the Board Meeting Notice of the Company published in "Financial Express" in English and "Jansatta" in Hindi.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Amrit Corp. Ltd.

(P.K. DAS)
Company Secretary &
Compliance Officer

Encl: As above



Amrit Corporate Centre

A - 95, Sector-65, NOIDA - 201 309 (U.P.) Ph.: 0120-4506900, 2406166 Fax: 0120-4506910 Website: www.amritcorp.com, Email: info@amritcorp.com

FINANCIAL EXPRESS



HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD.

The Capital Court, Munirka, Outer Ring Road, Olof Palme Marg, New Delhi-67 CIN L70100MH1977PLC019916 Website: www.hdfc.com

DEMAND NOTICE

Under Section 13 (2) of the Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 (Act) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Housing Development Finance Corporation Ltd. (HDFC Limited) under Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued Demand Notices under Section 13 (2) of the said Act, calling upon the Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) listed hereunder, to pay the amounts mentioned in the respective Demand Notice/s, within 60 days from the date of the respective Notice/s, as per details given below. The undersigned have, caused these Notices to be pasted on the premises of the last known respective addresses of the said Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s). Copies of the said Notices are available with the undersigned, and the said Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s), may, if they so desire, collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours.

In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) to pay to HDFC Limited, within 60 days from the date of publication of this Notice, the amounts indicated hereinbelow in their respective names, together with further interest @ 18% p.a. as detailed in the said Demand Notices from the respective dates mentioned below in column (c) till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents/writings, if any, executed by the said Borrower(s). As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to HDFC Limited by the said Borrower (s) respectively.

Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) attention is invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset/s.

Sr. No.	Name of Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) / Guarantor	Total Outstanding Dues	Date of Demand Notice	Description of Secured Asset(s) / Immovable Property (ies)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	MR RAJESH SAHNI	Rs. 10,04,955/- (as on 30-NOV-2021)	30-DEC- 2021	259, GROUND FLOOR, SECTOR OMICRON-3, GREATER NOIDA, UTTAR PRADESH- 201307 WITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNAETH AND CONSTRUCTION THEREON PRESENT AND FUTURE
2.	MR LALIT TOMAR & MRS SANTOSH TOMAR	Rs. 27,49,769/ (As on 30-NOV-2021)	28-DEC- 2021	FLAT NO. A4, FIRST FLOOR, MIG, PLOT NO. 20-B, MIDDLE RHS, SITUATED IN SHALIMAR GARDEN EXTENSION- 2, HADBAST NAGAR, VILLAGE PASONDA, TEHSIL AND DISTRICT GHAZIABAD, UTTAR PRADESH ALONG WITH UNDVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH AND CONSTRUCTION THEREON PRESENT AND FUTURE
3.	MRS NAGHMA PERVEEN & MR. SABIR HUSSAIN	Rs. 38,47,076/- (as on 30-NOV-2021)	28-DEC- 2021	APARTMENT NO. I-506, TOWER-I, 5TH FLOOR, "JM FLORENCE" SITUATED ON PLOT DV-GH-09C, SECTOR-TECH ZONE-IV, GREATER NOIDA (WEST), GAUTAM BUDH NAGAR, UTTAR PRADESH ALONG WITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH
4.	MR RAHUL KUMAR DWIVEDI	Rs. 30,62,132/- (as on 30-NOV-2021)	28-DEC- 2021	APARTMENT NO. 1107, 11TH FLOOR, MIG-IIA, TOWER F-3, "PANCHSHEEL PINNACLE (GREENS), SITUATED ON PLOT NO. GH-01A, SECTOR-16B, GREATER NOIDA, UTTAR PRADESH, ALONG WITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH
5.	MR ABHISEK	Rs. 23,04,235/- (as on 30-NOV-2021)	28-DEC- 2021	FIRST FLOOR BUILT ON PLOT NO. 19, KHASRA NO. 834, SANJEEVNI ESTATE COLONY, MODINAGAR, VILLAGE SIKRI KHURD, PARGANA JALALABAD TEHSIL MODINAGAR DISTRICT GHAZIABAD ALONG WITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH AND CONSTRUCTION THEREON PRESENT AND FUTURE
6.	MR ATANU GHOSH & MRS. JAYATI SHARMA	Rs. 15,72,672/- (as on 30-NOV-2021)	30-DEC- 2021	FLAT NO. 1349, 13TH FLOOR, BLOCK BHAGIRATHI, MIG-1, "MAHAGUN PURAM", NH- 24, MEHRAULI, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH ALONG WITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH
7.	MS KAMINI BAGAI	Rs. 21,65,022/- (as on 30-NOV-2021)	30-DEC- 2021	FLAT NO. 1902, TOWER B4, "SUPERTECH ECO VILLAGE-2", SITUATED AT PLOT NO. GH-01, SECTOR-16B, GREATER NOIDA, UTTAR PRADESH, ALONG WITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND
8.	MRS PRIYANKA SINHA	Rs. 45,08,596/- (as on 30-NOV-2021)	28-DEC- 2021	FLAT NO. 1703, 16TH FLOOR, BLOCK B-5, "CHERRY COUNTY", BUILT ON PLOT NO. GH-5B, SITUATED AT SECTOR TECHZONE-IV, GREATER NOIDA, DISTRICT GAUTAM BUDH NAGAR, UTTAR PRADESH ALONG WITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH
9.	MR SUMANT KUMAR SHARMA & MRS JOYTI SHARMA	Rs. 3,82,947/- (as on 30-NOV-2021)	30-DEC- 2021	FLAT NO. 1103, 11TH FLOOR, TOWER- B16, SUPERTECH ECO VILLAGE-2, SITUATED AT GH-01, SECTOR-16 B, GREATER NOIDA, UTTAR PRADESH-201303, ALONG WITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH
10.	MRS SOMESWARI KOKKIRALA & MR. VENKATA KRISHNA MURTHY KOKKIRALA	Rs. 24,99,724/- (as on 30-NOV-2021)	31-DEC- 2021	FLAT NO. 72-B, FIRST FLOOR, FREE HOLD DDA, LIG CATEGORY, SITUATED AT DWARKA POCKET-B, SECTOR-26, NEW DELHI UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LANDUNDERNEATH
11.	MRS JYOTI KUMARI (CO- BORROWER/WIFE/LEGAL HEIR/LEGAL REPRESENTATIVE OF BORROWER MR SUBHASH RANJAN [SINCE DECEASED])	Rs. 42,86,063/- (as on 30-NOV-2021)	29-DEC- 2021	RESIDENTIAL HOUSE BUILT ON PLOT- 589, BLOCK -A, SECTOR-03, GREATER NOIDA, UTTAR PRADESH-201314 ALONGWITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH AND COSNTRUCTION THEREON PRESENT AND FUTURE
12.	MR HIMANSHU SHARMA & MR. RAM PRAKASH SHARMA	Rs. 20,63,897/- (as on 30-NOV-2021)	29-DEC- 2021	FLAT No. N-303,3rd FLOOR TERRA CITY CARNATION, GRAM-PAWATI, PIPLANA & ABHANPUR, TEHSIL-T IJARA, ALWAR BYE PASS, BHIWADI, RAJASTHAN & CONSTRUCTION THEREON PRESENT & FUTURE
13.	MRS RUBY & MR ASHOK KUMAR	Rs. 15,03,737/- (as on 30-NOV-2021)	31-DEC- 2021	UNIT NO. SC-071, LGF, JAIPURIA'S SUNRISE GREENS/PLAZA, PLOT NO. 12A, AHINSA KHAND, INIDRPURAM, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH, ALONG WITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH
14.	MR PRANJAL KULSHRESTHA & MRS SHIPRA	Rs. 32,98,479/- (as on 31st-DEC-2021)	03-JAN- 2022	FLAT NO. HAZEL-1111, 11TH FLOOR, BLOCK- HAZEL-2,"JASMINE GROVE", SITAUTED AT VILLAGE MEHROLI, DISTRICT GHAZIABAD,

*with further interest @ 18% p.a. as applicable, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and / or realization. If the said Borrower (s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) shall fail to make payment to HDFC Limited as aforesaid, then HDFC Limited shall proceed against the above Secured Asset(s) / Immovable Property (ies) under Section 13 (4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) as to the costs and consequences.

Rs. 23,02,666/-

(as on 30-NOV-2021)

28-DEC-

2021

The said Borrower (s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) are prohibited under the said Act to transfer the aforesaid Secured Asset (s) / Immovable Property (ies), whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of HDFC Limited. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules made thereunder shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.

For Housing Development Finance Corporation Ltd.

SHARE OF LAND UNDERNEATH.

Date: 21-JAN-2022 Place: New Delhi **Authorised Officer**

Regd. Office: Ramon House, H T Parekh Marg, 169, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai- 400020

Amrit Corp. Ltd. CIN:L15141UP1940PLC000946

Reg. Office:CM/ 28, First Floor, Gagan Enclave, Amrit Nagar, G T Road, Ghaziabad-201009(U.P.)

Corp. Office: Amrit Corporate Centre, A-95, Sector-65, Noida-201309 (U.P.) Ph.: 0120-4506900, Fax: 0120-4506910, E-mail: info@amritcorp.com Website: www.amritcorp.com

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulations 29, 33, 47 and any other Regulation, if applicable, of the Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations') that meetings of Board of Directors and Audit Committee of the Company will be held on Monday, the 07th February, 2022 through video conferencing to inter alia consider, examine and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter/nine month ended December 31, 2021. In terms of Regulation 47(2) of the said Listing Regulations, the Notice is also available on the website of the Company viz. www.amritcorp.com as well as on

the website of BSE Limited. for Amrit Corp. Ltd.

Dated: 21/01/2022 Place: Ghaziabad

(P. K. Das) **Company Secretary**

FORM B **PUBLIC ANNOUNCEMENT**

(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)

1.	NAME OF CORPORATE DEBTOR	M/S SHRI GANESH FIRE EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
2.	Date of Incorporation of Corporate Debtor	14/06/2010
3.	Authority under which Corporate Debtor is Incorporated/Registered	Registrar of Companies NCT of Delhi & Haryana
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor	U29300DL2010PTC204055
5.	Address of the registered office & principal office (if any) of Corporate Debtor	Registered Office: 6/205, Second Floor, Didar Commercial Complex DLF Indl., Area Moti Nagar, New Delhi – 110015 Unit: 6/6 Didar Comm.Complex D.L.F, Indl.Area, Moti Nagar, New Delhi110015 Unit-II: Plot No.27F/1A,Khasra No.93/10, Mundka Indl.Area, New Delhi-110041 Unit-III: Plot No.D-4, E.P.I.P Hajipur, Distt. Vaishali-844101 (Bihar)
6.	Date of closure of Insolvency Resolution Process	23rd December, 2021
7.	Liquidation commencement date of Corporate Debtor	23rd December, 2021 (Order passed by Hon'ble Adjudicating Authority, Delhi, Bench IV in IA No. 5619/2020 in Company Petition (IB)-364/ND/2019 on 23rd December, 2021 received on 19th January, 2022
8.	Name & Registration Number of Insolvency Professional acting as Liquidator	Prabhakar Kumar Regn. No: IBBI/IPA-002/IP-N00774/2018-2019/12373
9.	Address and Email of the liquidator as registered with the Board	Address: E-18, Ground Floor, Guru Nanak Pura, Janakpuri ,New Delhi, 110058 E-Mail: prabhakar_acs@rediffmail.com
10.	Address and e-mail to be used for	Prabhakar Kumar

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, Delhi, Bench IV, has ordered the commencement of liquidation of the M/s. Shri Ganesh Fire Equipments Private Limited on 23rd December, 2021 (Order received on 19th January 2022) under section 33 of the Code. The stakeholders of M/s. Shri Ganesh Fire Equipments Private Limited are hereby called upon to

Address: E-18, Ground Floor, Guru

E-Mail: liq.shriganesh@gmail.com

Nanak Pura, Janakpuri New Delhi, 110058

2022 from Hon'ble Adjudicating Authority, hence

30 days calculated from the receipt of order)

18th February, 2022 (Order received on 19th January

Sd/-

submit a proof of their claims, on or before 18th February 2022, to the liquidator at the address mentioned

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

correspondence with the liquidator

Last date for submission of Claims

Name and signature of liquidator: Prabhakar Kumar

Place : New Delhi IBBI Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00774/2018-2019/12373

IMPORTANT Whilst care is taken prior to acceptance of

advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Genus

energizing lives

GENUS PRIME INFRA LIMITED CIN: L24117UP2000PLC032010

Moradabad, U.P.-244001 Phone: +91-591-2511171 | Fax: +91-591-2511242 E-mail: cs.genusprime@gmail.com | Website: www.genusprime.com

FORM NO. CAA. 2

Registered Office: Near Moradabad Dharam Kanta, Kanth Road, Harthala,

[Pursuant to Section 230 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 6 and 7 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rule, 2016] Company Scheme Application CA (CAA) No. 27/ALD of 2021

IN THE MATTER OF THE SCHEME OF ARRANGEMENT AMONGST GENUS PRIME INFRA LIMITED AND SANSAR INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED AND STAR VANIJYA PRIVATE LIMITED AND SUNIMA TRADING PRIVATE LIMITED AND SENUS POWER INFRASTRUCTURES LIMITED AND YAJUR COMMODITIES LIMITED

GENUS PRIME INFRA LIMITED, a Company incorporated 1 under the Companies Act, 1956 having Corporate Identification Number as L24117UP2000PLC032010 and having its registered office situated at Near Moradabad Dharam Kanta, Kanth Road, Harthala, Moradabad,

Uttar Pradesh - 244001.

. Company/ Amalgamated Company/ Resulting Company

Notice and advertisement of notice of the meeting of equity shareholders of the Company

Notice is hereby given that by an order dated the December 08, 2021 ("Tribunal Order"), the Allahabad Bench of the National Company Law Tribunal ("Tribunal") has directed a meeting to be held of equity shareholders of the Company for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the Scheme of Arrangement amongst Genus Prime Infra Limited ("Company" or "Amalgamated Company" or "Resulting Company") and Sansar Infrastructure Private Limited ("Amalgamating Company 1") and Star Vanijya Private Limited "Amalgamating Company 2") and Sunima Trading Private Limited "Amalgamating Company 3") and Genus Power Infrastructures Limited "Demerged Company") and Yajur Commodities Limited ("Amalgamating Company 4") and their respective shareholders and creditors ("Scheme") under Section 230 to Section 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") at such date and time, mentioned hereinafter in terms of the Tribunal

In pursuance of the Tribunal Order and as directed therein and in compliance with the Act and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), further notice is hereby given that a meeting of equity shareholders the Company will be held at Paper Mill, Village Aghwanpur, Kanth Road, Moradabad, Uttar Pradesh -244001 on Saturday, the 26th day of February, 2022 at 11:00 A.M. IST. A copy of the said Scheme, statement under Sections 230 and 232 read with Section

102 and other applicable provisions of the Act and Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 ("CAA Rules") along with all annexures are also placed on the website of the Company viz www.genusprime.com; the website of Central Depository Services (India) Limited (www.cdslindia.com), being the agency appointed by the Company to provide the e-voting for equity shareholders and other facilities for convening of the Meeting for equity shareholders; and the website of the Stock Exchange, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com. The same can also be obtained free of charge on any day (except Saturday, Sunday and public holidays) at the registered office of the Company at Near Moradabad Dharam Kanta, Kanth Road, Harthala, Moradabad, U.P.-244001. Persons entitled to attend and vote at the meeting of equity shareholders, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the company at Near Moradabad Dharam Kanta, Kanth Road, Harthala, Moradabad, U.P.-244001 not later than 48 hours before the meeting of equity shareholders. Form of Proxy can be obtained from the registered office of the Company or download the same from the Company's Website viz. www.genusprime.com.

The Tribunal has appointed Mr. Rahul Agarwal, Advocate and failing him, Ms. Pragya Pandey, Advocate as Chairperson of the said meeting or any adjournment thereof and Mr. Shashi Kant Gupta, Practicing Company Secretary as Scrutinizer to conduct the voting in a fair and transparent manner at the said meeting or any adjournment thereof. The aforementioned Scheme, if approved by the meeting of equity shareholders, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.

An equity shareholder, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date, i.e., Friday, December 31, 2021 only shall be entitled to exercise his/her/its voting rights on the resolution proposed in the Notice and attend the meeting of equity shareholders. A person who is not an equity shareholder as on the cut-off date, should treat the Notice for information purpose only. The equity shareholders shall have the facility and option of voting on the resolution

for approval of the Scheme by casting their votes (a) through ballot/polling paper available at the Meeting to be held physically or (b) through postal ballot or (c) by emote electronic voting ("remote e-voting") during the period as stated below: Remote E-Voting Period

Commencement of Voting	Thursday, January 27, 2022 at 9:00 A.M. (IST)				
nd of Voting	Friday, February 25, 2022 at 5:00 P.M. (IST)				
mited as the agency to p	the services of Central Depository Services (India) rovide the facility for remote e-voting to equity ty of voting through postal ballot is being also offered				

to all the shareholders to whom the physical notices or electronic notices are being issued. All completed and signed Postal Ballot Form shall be sent to the Scrutinizer or

by email to the Scrutinizer at skgupta1903@gmail.com so as to reach the Scrutinizer before 05:00 p.m. on Friday, February 25, 2022. The manner of voting using remote e-voting facility and postal ballot is provided in the instructions Equity shareholders seeking any information with regard to the Scheme or the matter proposed to be considered at the aforesaid meeting, are requested to

write to the Company at least seven days before the date of the meeting through email on cs.genusprime@gmail.com, or directly call telephone no. +91-591-2511171 during business hours on any working day. Dated: Friday, January 21, 2022

> Rahul Agarwal Chairperson appointed by Tribunal for the meeting of the equity shareholders of the Company

pnb Housing

APPENDIX -IV-A E-AUCTION-PUBLIC SALE NOTICE OF IMMOVABLE PROPERTY/IES Finance Limited E-Auction-Sale Notice for Sale of Immoveable Assets Under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and

Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Ghar Ki Baat

Registered Office: 9th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K.G. Marg, New Delhi-110 001 PH.: 011-23357171, 23357172, 23705414, Website: www.pnbhousing.com BRANCH ADDRESS: - Shop No. 301,302 & 304 Laxmi Chambers 69, Rajpur Road, Dehradun - 248001

Ph.No: 0135-2749977, Email: dehradun@pnbhousing.com, website:- www.pnbhousing.com BRANCH ADDRESS: H.No.36, Block, B-1, Ground Floor, Janakpuri Delhi -110058,

Ph.No. 011-25546073/74/75 70/74, Email: janakpuri@pnbhousing.com, Website:- www.pnbhousing.com Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower(s) & guarantor(s) indicated in Column No. - A that the below described immovable property (ies) described in Column No.-D mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/Physical Possession of which has been taken (as described in Column No. - C) by the authorized Officer of M/s PNB Housing Finance Limited (PNB HFL)/ Secured Creditor, will be sold on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS and WHATEVER THERE IS BASIS" as per the details mentioned below.

Notice is hereby given to borrower(s)/mortgagor(s)/Legal Heirs, Legal Representative, (whether Known or Unknown), executor(s), administrator(s), successor(s), assignee(s) of the respective borrowers/mortgagor(s)(since deceased) as the case may be indicated in Column No. - A under Rule-8(6) & 9 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 amended as on date. For detailed ons of the sale please refer to the link provided in M/s. PNR Housing Finance Limited (PNRHFL) secured creditor's website i.e. www.pnbhousing.com

Loan No. / Name of the Borrower/Co-Borrower/ Guarantor(s)/ Legal heirs (A)	Demanded Amount & Date (B)	Nature of Possession (C)	Description of the Properties Mortgaged (D)	Reserve Price (RP) (E)	EMD (10% of RP) (F)	Last Date of Submission of Bid (G)	Bid Incremental Rate (H)	Inspection Date & Time (I)	Date of Auction & Time (J)	Known Encumbrances/ Court Case, if any (K)
HOU/DEH/1216/341130 KRISHNA DEVI & MAHESH CHANDRA, B.O.: DEHRADUN	Rs. 15,08,413.21 As on 20-05-2019	(Physical)	All That Part And Parcel Of Property Having Forming Part Of Land Bearing Khata No. 2312 (Fasii Year 1399-1404), Khasra No. 704/4, Area Measuring 2030 Sq. Ft, Situated At Mauza Archedia Grant, Pargana Pachwadoon, Distt-Dehradun - 248198 Uttarakhand 248001 Boundries as:- East- Land Of Shri Arvind Kumar, Sm 58 Ft, West- land Of Shri Lekhram Thakur, Sm 58 Ft, North- Tea Estate Sm 35 Ft, South- 15 Ft. Wide Passage Sm 35 Ft	15,30,000/- (Rupees Fifteen Lakh Thirty Thousand Only)	Rs. 1,53,000/- (Rupees One Lakh Fifty Three Thousand Only)	07-02-2022 Before 5.30 p.m	Rs. 10,000/-	01-02-2022 / 11.00 A.M. to 5.00 P.M.	08/02/2022 / 11:00 A.M. To 2:30 P.M.	**Nil/Not Know
HOU/DEH/1118/603925 PRADEEP KUMAR & RITA DEVI, B.O.: DEHRADUN	Rs. 16,34,398.12 as on 16-11-2019	(Physical)	All That Part And Parcel Of Property Having Forming Part Of Land Bearing Khata No. 155 (fasil Year 1399-1404), Khasra No. 3199 Min, Area Measuring 93.27 Sq. Mt, Situated At Mauza Atenbagh, Pargana Pachwadoon, Tehsil Vikasnagar, Distt- Dehradun - 248198, Boundries As:- East- Land Of Others, Sm 19.3 Ft. West- 20ft. Wide Passege, Sm 19.3 Ft, North- Land Of Others, Sm 53 Ft, South- Land Of Smt. Anju Thapa, Sm 51 Ft.	12,56,000/- (Rupees Twelve Lakh Fifty Six	Rs. 1,25,600/- (Rupees One Lakh Twenty Five Thousand Six Hundred Only)	07-02-2022 Before 5.30 p.m	Rs. 10,000/-	01-02-2022 / 11.00 A.M. to 5.00 P.M.	08/02/2022 / 11:00 A.M. To 2:30 P.M.	**Nil/Not Know
00216660003248 & 00216700003835 Pramila & Rainar Sallas, B.O.: DEHRADUN	Rs. 18,73,436.72 as on 25/11/2017	(Physical)	All that land Khata Khatoni No 55, Fasli Year (1416-1421) Khasra no 5873 Area 130.11 Sq. Meter situated at Mauza Nawabgarh, Pargana Pachwadoon, Tehsil Vikas Nagar, Distt – Dehradun, Bounded and Butted as under: East: Land of Sri Joyal SM 50 Ft, West: Gool of Irrigation department. SM 50 Ft, North: Land of Sri Adesh Kumar, SM 28 Ft, and South: Land of others SM 28 Ft.	Rs. 23,44,500/- (Rupees Twenty Three Lakh Fourty Four Thousand Five Hundred Only)	Rs. 2,34,450- (Rupees Two Lakh Thirty Four Thousand Four Hundred Fifty Only)	07-02-2022 Before 5.30 p.m	Rs. 10,000/-	01-02-2022 / 11.00 A.M. to 5.00 P.M.	08/02/2022 / 11:00 A.M. To 2:30 P.M.	**Nil/Not Know
HOU/JAN/0317/367145 Ravi Shanker & Neetu Verma, B.O.: JANAKPURI	Rs. 66,19,233.53 as on 20-08-2019	(Physical)	Plot No. 456, Block - F, SF, Royale Casa Floors, Sushant Lok - II, Gurgaon, Haryana - 122001 Area 1217 sq.ft.	Rs. 59,00,000/- (Rupees Fifty Nine Lakh Only)	Rs. 5,90,000/- (Rupees Five Lakh Ninety Thousand Only)	07-02-2022 Before 5.30 p.m	Rs. 10,000/-	01-02-2022 / 11.00 A.M. to 5.00 P.M.	08/02/2022 / 11:00 A.M. To 2:30 P.M.	**Nil/Not Known
00316700001030 & 00316660001029 Rajveer Singh & Sumita Singh, B.O.: JANAKPURI	Rs. 5,13,94,665.27 as on 16-11-2015	(Physical)	C 1/2926, Sushant Lok 1, Gurgaon, Haryana -122001 Area 394.80 Square Meter	Rs. 5,40,00,000/- (Rupees Five Crore Fourty Lakh Only)	Rs. 54,00,000/- (Rupees Fifty Four Lakh Only)	07-02-2022 Before 5.30 p.m	Rs. 1,00,000/-	01-02-2022 / 11.00 A.M. to 5.00 P.M.	08/02/2022 / 11:00 A.M. To 2:30 P.M.	**Nil/Not Know

*Together with the further interest @18% p.a. as applicable, incidental expenses, cost, charges etc. incurred upto the date of payment and/or realization thereof. ** To the best knowledge and information of the authorized Officer of PNB Housing Finance Limited, there are no other encumbrances/ claims in respect of above mentioned immovable/secured assets except what is disclosed in the column no-K. Further such encumbrances to be catered/paid by the successful purchaser/bidder at his/her end. The prospective purchaser(s)/bidders are

- requested to independently ascertain the veracity of the mentioned encumbrances. As on date, there is no order restraining and/or court injunction PNBHFL/the authorized Officer of PNBHFL from selling, alienating and/or disposing of the above immovable properties/secured assets. 2. The prospective purchaser/bidder and interested parties may independently take the inspection of the pleading in the proceedings/orders passed etc. if any, stated in column no-K. Including but not limited to the title of the documents of the title pertaining thereto available with the PNBHFL and satisfy themselves in all respects prior to submitting tender/bid application form or making Offer(s).
- The bidder(s) has to sign the terms and conditions of this auction along with the Bid Form. 3. Please note that in terms of Rule 9(3) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the bidder(s)/the purchaser is legally bound to deposit 25% of the amount of sale price, (inclusive of earnest money, if any, deposited) on the same day or not later than next working day. The sale may be confirmed in favour of (bidder(s) only after receipt of 25% of the sale price by the secured
- creditor in accordance with Rule 9(2) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The remaining 75% of the s sale consideration amount has to be deposited by the purchaser within 15 days' from the date of acknowledgement of sale confirmation letter and in default of such deposit, the property/secured asset shall be resold. M/s. NexXen Solutions Private Limited would be assisting the Authorised Officer in conducting sale through an e-Auction in the Web Portal (https://DisposalHub.com). For any assistance related to inspection of the property or obtaining the Bid Documents and for any other query or for registration, you have to co-ordinate with the Client Service Delivery

PLACE: DEHRADUN / JANAKPURI, NEW DELHI DATE: 21-01-2022

PNB HOUSING FINANCE LIMITED

New Delhi

or refert www.pnbhousing.com.

(CSD) Department Mobile No. +91 93100 29933, +91 98100 29926, Telephone No. +91 124 4 233 933, having its Corporate Office at NexXen Solutions Private Limited, 2nd Floor, Shree

Shyam Palace, Sector: 4&5 Crossing, Railway Road, Gurugram -122006 or Lalit Dhaiya Mobile No. 9311833234, Pankaj Tiwari Mobile No. 7895649900, Authorised person of PNBHFL Sd/- AUTHORIZED OFFICER,

financialexp.epa

MR KAPUR CHAND MANJHI

& MRS. SUNITA

1289/1025, SITUATED IN VILLAGE KHIJURIBAS, TEHSIL TIJARA, DISTRICT ALWAR, RAJASTHAN ALONG WITH UNDIVIDED PROPORTIONATE

VILLAGE MEHROLI, DISTRICT GHAZIABAD, UTTAR PRADESH ALONG WITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH. APARTMENT NO. E-1503, 14TH FLOOR, TOWER-E, "TERRA ELEGANCE", KHASRA NO.

के नियम 4 (1) के अनुसार, एतदवारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, कंपनी रेजिस्ट्रार, कानपुर को एक आवेदन दिया गया है कि मैसर्स सरीन स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज एक साझोदारी फर्म है जिसका कार्यालय 15 पर है। विक्टोरिया पार्क, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250001, एक व्यवसायिक इकाई कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग । के तहत शेयरों द्वारा सीमित

कंपनी के रूप में पंजीकरण प्राप्त करने का इरादा रखती है। कंपनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैंक मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय करना, सभी प्रकार के खेल के सामान उपकरणों का व्यापार और निर्यात, चल रहे प्रतिष्ठानों और अन्य संबद्ध सेवाओं का अधिग्रहण और संबद्ध सेवाओं का व्यवसाय करना।

प्रस्तावित कंपनी के डाफ्ट मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एक प्रति का निरीक्षण कार्यालय 15, विक्टोरिया पार्क, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250001 में किया जा सकता है। एतदवारा सचना दी जाती है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति सिखित रूप में कंपनी रजिस्ट्रार, कानपुर 37/17, वेस्टकॉट बिल्डिंग, द मॉल, कानपुर-208001 उत्तर प्रदेश इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, कंपनी के पंजीकत कार्यालय में एक प्रति के साध

आवेदक का नामः श्री जतिन सरीन सरीन स्पोटर्स इंडस्टीज

अमत कोर्प. लिमिटेड

दिनांकः जनवरी 03, 2022

सीआईएन:L15141UP1940PLC000946 पंजीकृत कार्यालय: सीएम/28, पहली मंजिल, गगन एन्क्लेव, अमृत नगर, जीटी रोड,

गाजियाबाद -201009 (यूपी) कोर्प. कार्यालय: अमृत कॉर्पोरेट केंद्र, ए-95, सेक्टर-65, नोएडा-201309 (यूपी) दरभाषः 0120-4506900 | फैक्स: 0120-4506910 | ई-मेल: info@amritcorp.com वेवसाइट: www.amritcorp.com

रतदुद्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताए विनियमावली २०१५ (''सचीकरण विनियमावली'') के विनियमों २९, ३३, ४७ और किसी अन्य विनियम, यदि लागू है, के अनुपालन में सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मण्डल तथा लेखा-परीक्षक समिति की बैठकें जो होंगी, उनका आयोजन सोमवार 07 फरवरी 2022 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ दिनांक 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही / नौ माह हेतू कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी और उनक अनुमोदन किया जाएगा।

उक्त सूचीकरण विनियमावली के विनियम 47(2) के निबंधनों के अंतर्गत सूचना जो है वह कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.amritcorp.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

कृते अमृत कॉर्प. लि. दिनांकितः 21.01.2022 (पी. के. दास) कंपनी सचिव स्थानः गाजियाबाद

प्रपत्र ए

सार्वजनिक उदघोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]

वा.क. अगरवाल एड कम्पना प्राइवट लिामटेड के क्रडाटरा के ध्यानाथ							
	संबंधि	त विवरण					
 1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	वी.के. अगरवाल एंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड					
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	25.06.2012					
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, दिल्ली					
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U45206DL2012PTC237993					
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	9/18, नेहरू एन्क्लेव ईस्ट कालकाजी एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110019					
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	19.01.2022 (आदेश 20.01.2022 को प्राप्त हुई)					
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि						
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के रूप में कार्यरत है						
	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का पता एवं ईमेलः	पताः पदम दिनेश एंड क., चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स, 11/6बी, IIरा तल, शान्ति चैम्बर्स, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005 ईमेलः padamdinesh@gmail.com					
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पताः एएए इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल्स एलएलपी ई–10ए, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली–110048 ईमेलः vkaggarwal@aaainsolvency.com					
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	02.02.2022					
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप	एन/ए					

वेब लिंकः https://ibbi.gov.in/home/down-(ख)प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है loads एतदुद्वारा सचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली ने 19.1.2022 (आदेश 20.1.2022 को प्राप्त हुई) वी.के. अगरवाल एंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉपेरिट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शरू करने का आदेश दिया है। एतदुद्वारा वी.के. अगरवाल एंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 2.2.2022 को या उससे पूर्व प्रमाण के

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्टॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथि: 22.1.2022 अंतरिम प्रस्ताव कर्मी का नाम एवं हस्ताक्षरः श्री दिनेश चन्द्र अगरवाल

धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम

13. किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकत प्रतिनिधि के एन/ए

रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये

इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से

प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया

स्थानः नई दिल्ली पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00090/2017-18/10186

Genus

जीनस प्राइम इंफ्रा लिमिटेड

सीआईएन: L24117UP2000PLC032010 पंजीकृत कार्यालय: मुरादाबाद धर्म काटा के पास, कांठ रोड, हरथला, मुरादाबाद, उ.प्र.-244001 फोन: +91-591-2511171 | फैक्स: +91-591-2511242 ई-मेल: cs.genusprime@gmail.com | वेबसाइट: www.genusprime.com

नियम, 2016, के नियम 6 तथा 7 के अनुपालन में कम्पनी योजना आवेदन

तथा यजुर कॉमाडिटिज लिमिटेड के मध्य व्यवस्था योजना के मामले में

एक कंपनी जिसका कॉर्पोरेट पहचान संख्या L24117UP2000PLC032010) कंपनी/ और इसका पंजीकृत कार्यालय मुरादाबाद धर्म काटा के पास, कांठ रोड, हरथला, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश - 244001, के पास स्थित है ।) परिणामी कंपनी

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ("ट्रिब्यूनल") की इलाहाबाद बेंच ने 08 दिसम्बर, 2021 के आदेश ("**ट्रिब्यूनल आर्डर**") द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 230 से धारा 232 एवं अन्य लागू होने योग्य प्रावधानों के अन्तर्गत, जीनस प्राइम इंफ्रा लिमिटेड "कंपनी" या **"अमालामेटेड कंपनी**" या "**रिज़ल्टिंग कंपनी**") तथा संसार इंफ्रास्टक्वर प्राइवेट लिमिटेड ("**अमालामेटिंग कंपनी 1**") तथा स्टार वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड ("**अमालामेटिंग कंपनी** 2") तथा सुनीमा टेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ("अमालामेटिंग कंपनी 3") तथा जीनस पावर इंफ्रास्टक्वरर्स लिमिटेड ("**डीमर्ज्ड कंपनी**") तथा यजर कॉमाडिटिज लिमिटेड ("अ**मालामेटिंग कंपनी 4**") तथा उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच 'व्यवस्था योजना' ("योजना") पर विचार करने के उद्देश्य से तथा यदि उचित समझा जाएं, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के अनुमोदन के लिए, कंपनी के इक्तिटी शेयरधारकों की एक बैठक ऐसी तारीख और समय पर आयोजित करने का निर्देश दिया है, जिसका

टिब्यनल के आदेश के अनसरण में एवं उसके निदेशानसार अधिनियम और भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनिमय, 2015 ("**सेबी सूचीबद्धता**" के अनुपालन में, एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी के इक्विटी शेयरधारको की एक बैठक शनिवार, 26 फरवरी, 2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे (भा.मा.स.) पेपर मील, गांव अगवानपुर,

उक्त योजना की एक प्रति. अधिनियम की धारा 230 एवं धारा 232 के साथ पठित धारा 102 एवं लागू होने योग्य अन्य प्रावधानों तथा कम्पनी (समझौते, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 ("**सीएए नियम**") के नियम 6 के अन्तर्गत विवरण, सभी संलग्नकों सहित, कम्पनी की वेबसाईट www.genusprime.com एवं इकिटी शेयरधारकों की बैठक आयोजित करने हेत् इक्विटी शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कम्पनी द्वारा नियुक्त एजेंसी होने के नाते, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाईट www.cdslindia.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट अर्थात बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) पर भी प्रदर्शित हैं। इन्हें किसी भी दिन (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों के अतिरिक्त) कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय, मुरादाबाद धर्म काटा के पास, कांठ रोड, हरथला, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश - 244001, के

इक्किटी शेयरधारकों की बैठक में भाग लेने और मतदान करने के हकदार व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से या

वह इक्रिटी शेयरधारक, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि, शुक्रवार 31 दिसम्बर, 2021 तक अभिलिखित हो, केवल वही सूचना में प्रस्तावित संकल्प पर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने एवं डक्किटी शेयरधारकों की बैठक में भाग लेने हेत् अधिकृत होगा। वह व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार इक्विटी शेयरधारक नहीं है

	रिमोट ई-वोटिंग अवधि
मतदान का प्रारंभ	गुरूवार, 27 जनवरी 2022 पूर्वाह 9:00 बजे (भा.मा.स.)
मतदान की समाप्ति	शुक्रवार, 25 फरवरी 2022 को अपराह 5:00 बजे (भा.मा.स.)
डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडि मतदान की सुविधा उन सम् नोटिस जारी किए जा रहे हैं उनकी ईमेल skgupta1	कों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु एजेंसी के तौर पर सेंट्रल या) लिमिटेड की सेवाएं ली है। इसके अलावा, डाक मतपत्र के माध्यम से भी शेयरधारकों को भी दी जा रही है, जिन्हें भौतिक नोटिस या इलैक्ट्रॉनिक हैं। सभी भरे हुए और हस्ताक्षरित पोस्टल बैलेट फार्म संवीक्षक को अथवा 903@gmail.com पर शुक्रवार 25 फरवरी, 2022 शाम 5 बजे से पहले ग सुविधा और पोस्टल बैलेट का उपयोग करके मतदान का तरीका नोटिस मे

इक्विटी शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि इस योजना या उपरोक्त बैठक में विचार किए जाने हेतु प्रस्तावित संकल्पों के विषय के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु कंपनी को बैठक की तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व cs.genusprime@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से अथवा किसी भी कार्य दिवस पर व्यावसायिक घंटों के दौरान फोन नं. +91-591 2511171 पर कॉल करके प्राप्त की जा सकती है।

(ရဲ) **၉၈၆** Housing Finance Limited

Ghar Ki Baat

मांग की

परिशिष्ट-IV-ए अचल सम्पत्ति / (यों) की ई—नीलामी—सार्वजनिक बिक्री सूचना

प्रतिगृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिगृतिकरण एवं पूनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी-बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालयः 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली— 110001, फोनः—011—23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइटः www.pnbhousing.com

शाखा पताः दूकान सं. 301, 302 एवं 304 लक्ष्मी चैंबर्स 69, राजपूर रोड, देहरादून–248001 फोन नं. 0135-2749977, ई-मेल: dehradun@pnbhousing.com, वेबसाइट: www.pnbhousing.com

हस्ता /

शाखा पताः मकान सं. ३६, ब्लॉक बी–१, भूतल, जनकपुरी, दिल्ली–११००५८

दूरभाष सं. 011—25546073/74/75/ 70/74, ई-मेलः janakpuri@pnbhousing.com, वेबसाइटः www.pnbhousing.com एतद्दवारा आम जनता और विशेष रूप से उन उधारकर्ता(ऑ) और गारंटर(ऑ), जिन्हें कॉलम संख्या–ए में इंगित किया गया है, को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या–डी में विवरणित नीचे वर्णित अचल संपत्ति(यां) जं सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास गिरवी /प्रभारित हैं, जिनका रचनात्मक /भौतिक कब्जा मै. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड(पीएनबी एचएफएल) / सिक्योर्ड क्रेडिटर के प्राधिकत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है (जैसा कि कॉलम

नंबर—सी में वर्णित है), अब उन्हें, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, ''जैसी हैं जहां हैं, जैसी हैं जो हैं और वहां जो कुछ भी हैं आधार'' पर बेचा जाएगा। एतद्दवारा उधारकर्ता(ओं) / बंधककर्ता(ओं) / संबंधित उधारकर्ताओं / बंधककर्ता(ओं) (मृतक होने के बाद से) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधि (चाहे ज्ञात या अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों), कॉलम संख्या–ए में निदर्षितानुसार, जैसा भी मामला हो, को तिथि के अनुसार संषोधित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम–8(6) और 9 के अंतर्गत नोटिस दिया जाता है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया मै. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड(पीएनबीएचएफएल), सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की वेबसाइट यानी www.pnbhousing.com में दिए गए लिंक को देखें।

उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / गारंटर(रों) / कानू नी उत्तराधिकारियों के नाम	गई राशि और तिथि	की प्रकृति	का विवरण	मूल्य (आरपी)	(10% आरपी की)	करने की अंतिम तिथि	दर	तिथि एवं समय	तिथि और समय	भारग्रस्तताएं / न्यायालयी मामले, यदि कोई,
(у)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(ज)	(के)
एचओयू / डीईएच / 1216 / 341130 कृष्णा देवी एवं महेश चंद्र शाखाः देहरादून	रु. 15,08,413.21 दिनांक 20.05.2019 के अनुसार	(भौतिक)	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंष इस प्रकार हैं भूमि के हिस्से के रूप में खाता सं. 2312 (फसली वर्ष 1399—1404), खसरा सं. 704/4, क्षेत्र मापन 2030 वर्ग फुट, जो मौजा आर्केडिया ग्रांट, परगना पचवादून, जिला—देहरादून 248198 उत्तराखंड—248001 में स्थित है, और जिसका परिसीमन इस प्रकार हैं: पूर्व— श्री अरविंद कुमार की भूमि, एसएम 58 फुट, पश्चिम— श्री लेखराम ठाकुर की भूमि, एसएम 58 फुट, उत्तर— टी एस्टेट एसएम 35 फुट, दक्षिण— 15 फुट चौड़ा गलियारा एसएम 35 फुट	(रुपए पंद्रह लाख तीस हजार मात्र)	रु.1,53,000 / — (रुपए एक लाख तिरेपन हजार मात्र)	07—02—2022 5:30 बजे से पहले	ড. 10,000 ∕ −	01—02—2022 11.00 बजे से 5:00 बजे	08—02—2022 11.00 बजे से 2:30 बजे तक	**शृन्य / अज्ञात
एचओयू / डीईएच / 1118 / 603925 प्रदीप कुमार एवं रीता देवी शाखाः देहरादून	रु. 16,34,398.12 दिनांक 16.11.2019 के अनुसार	(भौतिक)	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंष इस प्रकार हैं: भूमि के हिस्से के रूप में खाता सं. 155 (फसली वर्ष 1399—1404), खसरा सं. 3199 मिन., क्षेत्र मापन 93. 27 वर्ग मीटर, जो मौजा अतेनबाग, परगना पचवादून, तहसील विकासनगर, जिला—देहरादून 248198 में स्थित है, और जिसका परिसीमन इस प्रकार है: पूर्व—अन्य की भूमि, एसएम 19.3 फुट, पश्चिम— 20 फुट चौड़ा गलियारा, एसएम 19.3 फुट, उत्तर— अन्य की भूमि, एसएम 53 फुट, दक्षिण— श्रीमती अंजू थापा की भूमि, एसएम 51 फुट	(रुपए बारह लाख छप्पन हजार मात्र)	रु.1,25,600 / – (रुपए एक लाख पच्चीस हजार छह सौ मात्र)	07—02—2022 5:30 बजे से पहले	ড. 10,000 ∕ −	01—02—2022 11.00 बजे से 5:00 बजे	08—02—2022 11.00 बजे से 2:30 बजे तक	**शून्य / अज्ञात
00216660003248 एवं 00216700003835 प्रमिला एवं रैनार सैलस शाखाः देहरादून	रु. 18,73,436.72 दिनांक 25.11.2017 के अनुसार	(भौतिक)	समस्त भूमि खाता खतौनी सं. 55, फसली वर्ष (1416—1421), खसरा सं. 5873, क्षेत्र मापन 130.11 वर्ग मीटर, जो मौजा नवाबगढ़, परगना पचवादून, तहसील विकास नगर, जिला—देहरादून में स्थित है, और जो इस प्रकार बाउंडेड एवं बटेड है: पूर्व— श्री जोयल की भूमि एसएम 50 फुट, पश्चिम— सिंचाई विभाग की गूल एसएम 50 फुट, उत्तर— श्री आदेश कुमार की भूमि एसएम 28 फुट तथा दक्षिण— अन्य की भूमि एसएम 28 फुट तथा दक्षिण— अन्य की भूमि एसएम 28 फुट	(रुपए तेईस लाख चवालिस हजार पांच सौ मात्र)	रु.2,34,450 / – (रुपए दो लाख चौंतिस हजार चार सौ पचास मात्र)	07—02—2022 5:30 बजे से पहले	रु. 10,000 ∕ −	01—02—2022 11.00 बजे से 5:00 बजे	08—02—2022 11.00 बजे से 2:30 बजे तक	**शून्य / अज्ञात
एचओयू / जेएएन / 0317 / 367145 रवि शंकर एवं नीतू वर्मा शाखाः जनकपुरी	रु. 66,19,233.53 दिनांक 20.08.2019 के अनुसार	(भौतिक)	भूखंड सं. 456, ब्लॉक—एफ, एसएफ, रॉयल कासा फ्लोर्स, सुशांत लोक— । ।, गुड़गांव, हरियाणा, भारत, 122001 क्षेत्र 1217 वर्ग फुट		रु.5,90,000 / – (रुपए पांच लाख नब्बे हजार मात्र)	07—02—2022 5:30 बजे से पहले	रु. 10,000 ∕ −	01—02—2022 11.00 बजे से 5:00 बजे	08—02—2022 11.00 बजे से 2:30 बजे तक	**शून्य / अज्ञात
00316700001030 एवं 00316660001029 राजवीर सिंह एवं सुमिता सिंह शाखाः जनकपुरी	रु. 5,13,94,665.27 दिनांक 16.11.2015 के अनुसार	(भौतिक)	सी 1/2926, सुशांत लोक 1, गुडगांव, हरियाणा—122001, क्षेत्र 394.80 वर्ग मीटर	रु. 5,40,00,000 / — (रुपए पांच करोड़ चालीस लाख मात्र)	रु.54,00,000 / — (रुपए चव्चन लाख मात्र)	07—02—2022 5:30 बजे से पहले	रु. 1,00,000 ∕ −	01-02-2022 11.00 बजे से 5:00 बजे	08-02-2022 11.00 बजे से 2:30 बजे तक	**शून्य / अज्ञात

लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार, यहां, कॉलम संख्या-के में जो खुलासा किया गया है, उसके अलावा उपर्युक्त अचल/प्रतिभृत परिसंपत्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावा नहीं है। इसके अलावा, इस तरह के ऋणभारों को सफल क्रेता)/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा/भुगतान किया जाना है। संभावित खरीददारों/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे स्वतंत्र रूप से, उल्लिखित ऋणभारों की सत्यता का पता लगाएं।

(1) तिथि के अनुसार, पीएनबीएचएफएल / पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री, अलगाव और / या निपटान करने से रोकने का और / या अदालती हक्म का कोई आदेश नहीं है और स्थिति का कॉलम संख्या-के में उल्लेख किया गया है।

(2) संभावित खरीदार / बोलीदाता और इच्छूक पक्ष निविदा / बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव(वों) को देने से पहले — पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध हकदारी दस्तावेजों की हकदारी सहित, लेकिन उन तक सीमित नहीं है—कॉलम सं–के में वर्णित कार्यवाहियों ⁄ पारित आदेषों. यदि कोई. में अभिवचन का स्वतंत्र रूप से निरीक्षण कर सकते हैं और खद को हर तरह से संतष्ट कर सकते हैं। बोलीकर्ता(ऑ) को इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर बोली प्रपत्र के साथ हस्ताक्षर करने होंगे।

(3) कपया ध्यान दें कि प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली. 2002 के नियम 9(3) के निबंधनों के अनसार, बोलीदाता(ओं) / खरीदार काननी रूप से उसी दिन अधिकतम अगले कार्य दिवस तक बिक्री मल्य की राशि का 25: (धरोहर राशि सहित) जमा करने के लिए बाध्य हैं। प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(2) के अनुसार प्रतिभृत लेनदार द्वारा बिक्री मृल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोलीदाताआ. ें) के पक्ष में बिक्री की पष्टि की जा सकती है। बिक्री प्रतिफल राषि का शेष 75% बिक्री पष्टिकरण पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा जमा किया जाना है और इस तरह के जमा के डिफॉल्ट होने पर, पर संपत्ति / प्रतिभृत परिसंपत्ति का पुनर्विक्रय किया जाएगा।

(4) मै. नेक्सन सॉल्यशंस प्राइवेट लिमिटेड, प्राधिकत अधिकारी को वेब पोर्टल (https://DisposalHub.com) में ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री करने में सहायता करेगा। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने से संबंधित किसी भी सहायता के लिए और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, आपको क्लाइंट सेवा प्रदायगी (सीएसडी) विभाग मोबाइल नं. 91 93100 29933, 91 98100 29926, दूरभाष सं. 91 124 4 233 933 से समन्वय करना होगा, समन्वयन के लिए इसका निगमित कार्यालय जो है वह नेक्सन सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड, द्वितीय तल, श्री श्याम पैलेस, सेक्टर: 4 एवं 5 क्रॉसिंग, रेलवे रोड, गुरुग्राम—122006 अथवा समन्वयन व्यक्ति श्री ललित दिहया मोबाइल नं. 9311833234, श्री पंकज कुमार तिवारी मोबाइल नंबर 7895649900 हैं या पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत व्यक्ति हैं अथवा www.pnbhous-

ing.com देखें। स्थानः देहरादून/जनकपुरीं,नई दिल्ली हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दिनांकः 21.01.2022

energizing lives

प्रपत्र सं. सीएए. 2 (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 (3) एवं कम्पनी (समझौते, व्यवस्था और समामेलन)

सीए (सीएए) संख्या 27/एएलडी 2021

जीनस प्राइम इन्फ्रा लिमिटेड तथा संसार इन्फ्रास्टक्चर प्राइवेट लिमिटेड तथा स्टार वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड तथा सनीमा टेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा जीनस पावर इन्फ्रास्टक्वर्स लिमिटेड

जीनस प्राइम इंफ्रा लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित

उल्लेख टिब्यनल आदेश के संदर्भ में इसके बाद किया गया है।

पास स्थित हैं . से भी नि:शल्क प्राप्त किया जा सकता है।

www.genusprime.comसे भी डाउनलोड किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल ने श्री राहुल अग्रवाल, अधिवक्ता को और उनकी अनुपस्थिति या विफल होने पर सुश्री प्रज्ञा

इक्रिटी शेयरधारकों के पास नीचे बताई गई अवधि के दौरान अपना वोट(क) भौतिक रूप से आयोजित होने वाली बैठक में उपलब्ध मतपत्र/मतदान पत्र के माध्यम से या (ख) डाक मतपत्र के माध्यम से या (ग) रिमोट इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग ("**रिमोट ई-वोटिंग**") के माध्यम से, डालकर योजना के अनुमोदन के संकल्प पर मतदान करने की सुविधा और विकल्प होगा।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि									
मतदान का प्रारंभ	गुरूवार, 27 जनवरी 2022 पूर्वाह 9:00 बजे (भा.मा.स.)								
मतदान की समाप्ति	शुक्रवार, 25 फरवरी 2022 को अपराह 5:00 बजे (भा.मा.स.)								
डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडि मतदान की सुविधा उन सम् नोटिस जारी किए जा रहे हैं उनकी ईमेल skgupta1	कों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु एजेंसी के तौर पर सेंट्रल्या) लिमिटेड की सेवाएं ली है। इसके अलावा, डाक मतपत्र के माध्यम से मी शेयरधारकों को भी दी जा रही है, जिन्हें भौतिक नोटिस या इलैक्ट्रॉनिक हैं। सभी भरे हुए और हस्ताक्षरित पोस्टल बैलेट फार्म संवीक्षक को अथव 903@gmail.com पर शुक्रवार 25 फरवरी, 2022 शाम 5 बजे से पहले ग सुविधा और पोस्टल बैलेट का उपयोग करके मतदान का तरीका नोटिस मे								

दिनांकः शुक्रवार, 21 जनवरी 2022

हस्ताक्षर/-राहुल अग्रवाल कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक हेतु ट्रिब्यूनल द्वारा नियुक्त अध्यक्ष

थापा का प्लाट

Particulars

Particulars

Place: Mumbai

Date: 21 January 2022

अंतिम बैठक के आयोजन की सूचना कंपनी (न्वायालय) नियम, 1959 फार्म नं. 155 (देखें नियम 329) सदस्यगण स्वैच्छिक परिसमापन

कंपनी का नामः मैपिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की घारा 497 के अनुसरण में, उनके सामने एक खाता प्रस्तृत करने जिसमें परिसमापन किए जाने का और कम्पनी की संपत्ति का निपटान करने का और परिसमापक द्वारा दिए जा सकने वाले स्पष्टीकरण को सनने और कंपनी के विशेष संकल्प द्वारा कंपनी और परिसमापक की लेखा बहियों और दस्तावेजों का निपटान किए जाने के तरीके का निर्धारण किए जाने के प्रयोजन हेत उपरोक्त नामित कंपनी के सदस्यों की आम बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय डब्ल्यू-126, भूतल, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली-110048 में शुक्रवार, 11 मार्च, 2022 को सुबह 11:00 बजे आयोजित की जाएगी।

दिनांकः 21 जनवरी, 2022 स्थानः नई दिल्ली

हस्ता/-रंजीत पांडेय (कंपनी के परिसमापक)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 सीआईएन : U67190MH2008PLC187552

मांग सचना

वित्तीय आस्तियो के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') के प्रवर्तन के तहत

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम के तहत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) वे प्राधिकत अधिकारी होने के नाते तथा नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों वे उपयोग में पहले ही अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे सूचीबद्ध कर्जदार(रों)/सह कर्जदार(रों)/जमानती(यों) (सभी को अकेले या एक साथ ''दायित्वधारी'' सन्दर्भित)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) से सम्बद्ध माँग सचना/ओं में उल्लिखित राशियों का नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार सम्बद्ध सुचना/ओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए माँग सुचना निर्गत की थी। कथित सुचनाओं की प्रतियाँ पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा भेजी गयी थीं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध तथा कथित दायित्वधारी/विधिक उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधि यदि चाहें तो किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालर्य घण्टों के दौरान अधोहस्ताक्षरी से सम्बद्ध प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में एतद्वारा एक बार पुनः कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को सूचना दी जाती है कि वे सम्बद्ध सूचना/ओं की तिथि से उनके सम्बद्ध नामों के सम्मुख नीचे वर्णित राशियों का कथित दायित्वधारी(यों) द्वारा ऋण अनुबन्ध के साथ पठित तथा अन्य दस्तावेजों/लेखनों, यदि कोई हो, द्वारा क्रियान्वित, भगतान की तिथि तथा/अथवा वसुली की तिथि तक नीचे कॉलम (डी) में वर्णित सम्बद्ध तिथियों से नीचे वर्णित के अनुसार भावी ब्याज सिंहत सम्बद्ध सूचना/ओं की प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर टीसीएचएफएल को अदा करने के लिए कहा जाता है। ऋण के बकाया पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभृति के रूप में क्रमश कथित दायित्वधारी(यों) द्वारा टीसीएचएफएल के पास निम्नलिखित प्रतिभत आस्ति(याँ) बन्धक रखी गयी हैं ।

		~	
अनुबंध सं.	दायित्वधारी(यों) ⁄ विधिक उत्तराधिकारी(यों) ⁄ विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	निम्नलिखित तिथियों तक कुल बकाया राशि रु.*	माँग सूचना की तिथि एनपीए की तिशि
9947543	संजीव थापा (कर्जदार) एवं शोभा	09.12.2021 तक रु. 847919/-	13-12-21
0.77***********	थापा (सह-कर्जदार)		07-11-21
TITALITY STIFT	नमें अन्यत्र मामनियों लंशक मामनियों न	er faranne manne man'	4077 THEFT TO

प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों/बंधक सम्पत्तियों का विवरण : खसरा नंबर 1277, खाता नंबर 392 (फसल वर्ष 1420-1425) मौजा-रायपुर, परगना- परवादुन, तहसील और जिला- देहरादुन पर स्थित आवासीय संपत्ति। माप क्षेत्रफल 84.97 वर्ग मीटर। पूर्व:- पदमजी की संपत्ति, पश्चिम: जग्ग जी की संपत्ति उसके बाद 20 फीट चौडी सडक, उत्तर:- पंडित जी का घर, दक्षिण:- मन्नी गोसाई की संपत्ति

10025740		24.12.2021 तक रु. 28,91,190/- (रुपये अट्टाईस 24-12-21 लाख इक्यानबे हजार एक सौ नब्बे मात्र) आपके
& 10342329	बबली उर्फ बबली	द्वारा देय और बकाया है, ऋण खाता संख्या 07-11-21
100.12020		10025740 के तहत और रुपये 2,85,518/-
	कर्जदार)	(रुपये दो लाख पिचासी हजार पांच सौ अट्ठारह
		मात्र) आपके द्वारा देय और बकाया है, ऋण खाता
		संख्या 10342329 के तहत, अर्थात कुल रु.
		31,76,708/- (रुपये इकतीस लाख छिहत्तर हजार
		सात सौ आठ मात्र)

मौजा-सेला कलां, परगना-केंद्रीयदून, जिला-देहरादून, उत्तराखंड-248001 में मकान, पूर्व से पश्चिम 35 फीट और उत्तर से दक्षिण- 27 फीट का कुल क्षेत्रफल 947 वर्ग फीट या 87.82 वर्ग मीटर पूर्व: -15 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम: - शारदा अग्रवाल का प्लॉट, उत्तर: -20 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः - प्लॉट अन्य

प्रतिभत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों/बंधक सम्पत्तियों का विवरण : खतौनी नं. 585. खंसरा नं. 742.

9407450	(सह-कर्जदार) एवं मनाषा थापा 23.12.2021 तक (सह-कर्जदार) रु. 1340786/-	23-12-21		
		07-11-21		
6/	तयों/अचल सम्पत्तियों/बंधक सम्पत्तियों का विवरण : संपत्ति आवासी	•		
	ा, नया खसरा नंबर 193 ग, मौजा– हरिपुर, परगना– परवादून, देहरा			
	सम्पूर्ण भाग, जिसका कुल क्षेत्रफल 188.19 वर्ग मीटर, सीमाएँ नि			
गर्दाः सदस्य	15 फीट चौदी प्रथिम, अन्य क्लॉट उत्तर श्री गततत्त्वी का क्लॉट टी	थियाः मीग टाम		

*उपर्युक्त सम्बद्ध माँग सुचनाओं की तिथि में विशेष रूप से उल्लिखित दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लागतों, प्रभारों आदि सहित भगतान तथा/अथवा वसली की तिथि तक व्यय यदि कथित दायित्वधारी उपर्यक्त के अनुसार टीसीएचएफएल को भगतान करने में असफल होंगे तं टीसीएचएफएल कथित अधिनियम की धारा 13(4) तथा प्रयोज्य नियमों के तहत लागतों तथा परिणामं के लिए पूर्ण रूप से कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों)

जोखिम पर उपर्युक्त प्रतिभृत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को कथित अधिनियम वे तहत उपर्युक्त प्रतिभृत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) को बिक्री, पट्टे या अन्य विधि टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमित के बिना हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत जेल तथा/अथवा जुर्माने का उत्तरदायी होगा।

तिथि : 22.01.2022 स्थान : देहरादून कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Additional information on standalone financial results is as follows:

Kanoria PG Mahila Mahavidyalaya Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302015.Ph. No.: 0141-2706672,270753

NOTICE INVITING TENDER

जनसत्ता, 22 जनवरी, 2022 9

Sealed Tenders are invited for 'Expansion of Shri Nand Lal Kanoria Complex (Phase-II)' work from 'A' class contractors registered with Central/ State Government Departments or any other Statutory Authority. Tender Forms may be obtained from the college office between 11 am to 3pm.

Estimated Cost 330 Lakhs **Earnest Money** 6,60,000/-**Tender Cost** 1.000/-

Date of Sale of Tender Form 24-01-2022 to 12-02-2022 Secretary

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिग्

जिकृत कार्यालय : इंडियन रेयोन कम्पाउण्ड, वेरावल, गुजरात–362266,

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

शाखा पता : डी-17, सेक्टर-3, नोएडा-201301 परिशिष्ट IV (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 का नियम 8(1) देखें)

ाक अधाहस्ताक्षरकता न आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनस लिमटेड के प्राधिकत र के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ (२००२ का ५४) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ व नियम 3 के साथ पिटत धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत एक मांग सूचन दिनांकित 16.11.2021 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ताओं नामतः कृष्ण लाल, अर्चना देवी और ऑल ट्रैक क्लियरिंग फॉरवार्डिंग कं. को सूचना में वर्णित राशि रु. 20,09,176.82 / – (रुपए बीर लाख नौ हजार एक सौ छिहत्तर एवं बयासी पैसे मात्र) का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभूगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्तागण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं अतएव एतदद्वार उधारकर्ताओं और जनसाधारण को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक 20 जनवरी 2022 को प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का कब्जा ग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन जो होगा, वह रु 20,09,176.82 / — (रुपए बीस लाख नौ हजार एक सौ छिहत्तर एवं बयासी पैसे मात्र) की एव राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा उधारकर्ताओं का ध्यानाकर्षण प्रतिभृत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट सं. टी4-104 के समस्त भाग तथा अंश, जो टॉवर सं. 04, ग्लोबल हिल व्यू, सेक्टर-11 सोहना गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है। दिनांक : 22.01.2022

प्राधिकृत अधिकारी आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्थान : गुड़गांव

भीलवाडा शाखा प्लॉट नंबर ए-1 जे.एस. बिल्डिंग प्रथम तल, पुर रोड, CIN: U65110TN1921PLC001908

भीलवाड़ा-311001, ईमेल:- Bhilwara@tmbank.in फोन नंबर : 01482- 240366,24367 अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी सूचना

प्रतिभित हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8(6) तथा 9(1) के साथ पठित सरफैसी अधिनियम के तहत बैंक के पास बंधक प्रभारित अचल आस्तियों की बिक्री एतदहारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवीकृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका रचनात्मक कब्जा तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा शाखा, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, की बिक्री श्री राजेश कुमार न्याती और सह–आवेदक /कर्जदार, श्री सुभाष चंद्र न्याती और गारंटर श्री अजय कुमार न्याती से तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा शाखा (प्रतिभूत लेनदार) के बकाया रु. 9,34,730.26/- की वसूली के लिए , ''जैसा है जहां है'', ''जो है यही है'' और ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर दिनांक

11.02.2022 को की जायेगी। सम्पत्ति सं. हेत् आरक्षित मूल्य रु. 21,75,000/- तथा जमा धरोहर राशि रु. 2,17,500/- होगी

सम्पत्ति का विवरण भूमि माप 1000 वर्ग फीट तथा उस पर निर्मित भवन 1574.43 वर्ग फीट की सीमा तक (भूतल-940.37 वर्ग फीट + प्रथम तल 504.06 वर्ग फीट + ममटी क्षेत्रफल - 130 वर्ग फीट) का इक्विटेबल बंधक, प्लॉट नं. ए-31, अरार्ज नं. ७२३७, शारदा ड्रीम सिटी, ग्राम गठीला खेड़ा, भीलवाड़ा-311001 में स्थित, श्री राजेश कुमार न्याती तथा सुभाष चन्द्र न्याती के नाम पर। सीमाएं : उत्तर : प्लॉट नं. ए-40 दक्षिण : सड़क पूर्व : प्लॉट नं. ए-32

नीलामी का स्थान तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड, प्लॉट नं. ए-1, जे.एस. बिल्डिंग, प्रथम तल, पुर रोड, भीलवाड़ा-311001, ई-मेल : bhilwara@tmbank.ii फोन नं. 01482-240367,240367

पश्चिम : प्लॉट नं. ए-30

नीलामी बिक्री की 11.02.2022 को 01.00 बजे अप

इच्छुक बोलीदाताओं को संपत्ति के आरक्षित मूल्य का दस प्रतिशत (10%) धरोहर राशि जमा (ईएमडी के रूप में ''तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड'' के पक्ष में तैयार ''डिमांड ड्राफ्ट'' के माध्यम र भीलवाड़ा शाखा में 11.02.2022 को दोपहर 12.30 बजे तक या उससे पहले जमा करना होगा। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट (www.tmb.in में प्रावधानित लिंक देखें।

अधिकृत प्राधिकारी तिथि : 21.01.2022 तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय

RattanIndia Power Limited Extract from the Unaudited Consolidated Financial Results

31.12.2021

(Unaudited)

for the Quarter and Nine Months Ended 31 December 2021

(Rs. Crore) Quarter ended Nine months ended Year ended 30.09.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.03.2021 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited)

Nine months ended

31.12.2021

(Rs. Crore)

Year ended

1	Total income from operations	804.79	757.14	303.86	2,436.29	697.73	1,559.86
2	Net loss for the period (before tax and exceptional items)	(386.69)	(463.95)	(69.09)	(1,237.33)	(981.14)	(941.85)
3	Net loss for the period before tax (after exceptional items)	(386.69)	(463.95)	(69.09)	(1,675.06)	(981.14)	(941.85)
4	Net loss for the period after tax (after exceptional items)	(386.69)	(463.95)	(69.09)	(1,675.06)	(981.14)	(941.86)
5	Total comprehensive loss for the period [Comprising loss for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)]	(386.69)	(464.83)	(69.52)	(1,675.94)	(975.57)	(936.24)
6	Paid-up equity share capital (Face value of Rs. 10 per equity share)	5,370.11	5,370.11	4,939.78	5,370.11	4,939.78	5,370.11
7	Other equity as shown in the audited balance sheet						(5,995.21)
8	Earnings per share before extraordinary items (Face value of Rs. 10 per equity share) - Basic (Rs.) - Diluted (Rs.) *(EPS for the quarter and nine months ended are not annualised)	(0.72)* (0.72)*	(0.86)* (0.86)*	(0.14)* (0.14)*	(3.12)* (3.12)*	(1.99)* (1.99)*	(1.88) (1.88)
No	es:	DESTRUCTION AND THE PARTY OF TH					

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) Total income from operations 804.79 757.14 303.86 2,436.29 697.73 1,559.86 Net profit for the period before tax 104.44 19.30 33.44 210.84 33.68 96.71 104.44 33.44 33.68 Net profit for the period after tax 19.30 210.84 96.71 4 Total comprehensive income for the period [Comprising profit for ther period after tax and other comprehensive income 104.44 33.44 18.36 209.90 34.06 96.68

Quarter ended

31.12.2021 30.09.2021 31.12.2020

The above is an extract of the unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the company's website www.rattanindia.com and on the Stock Exchanges website at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

The Auditors in their Auditor's Review Report on Consolidated Unaudited Quarterly Financial Results have brought out as below: Sinnar Thermal Power Limited (STPL), a wholly-owned subsidiary company, is yet to commence operations and has incurred a net loss amounting to ₹484.71 crores during the quarter ended 31 December 2021. Further, STPL's accumulated losses as at 31 December 2021 amounted to ₹9,098.60 crores and its current liabilities exceed its current assets by ₹9,761.63 crores as of that date. STPL has also defaulted in repayment of borrowings from banks, including interest, aggregating to ₹8,614.68 crores up till 31 December 2021. These conditions along with other matters including termination of Letter of Intent ("LOI") by Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd (MSEDCL) in respect of LOI earlier issued by MSEDCL to enter into a power purchase agreement with STPL and withdrawal of the petition filed before Maharashtra Electricity Regulatory Commission (MERC) by STPL, as set forth in such note, indicate the existence of material uncertainty that may cast significant doubt about the STPL's ability to continue as a going concern. The management is of the view that going concern basis of accounting for STPL is appropriate owing to the mitigating factors mentioned in the aforesaid note and that no adjustments are necessary to the carrying value of the assets, including property plant and equipment (including right-of-use) of STPL aggregating to ₹7,889.34

However, in the absence of sufficient evidence for the aforesaid assessment performed by the management including the uncertainty over the outcome of ongoing discussions with the lenders to secure firm and unconditional commitment for providing working capital loans/ bank guarantees required for executing the PPA, we are unable to obtain sufficient appropriate evidence to comment on the appropriateness of going concern assessment of STPL by the management or adjustments, if any, that may further be required to be made to the carrying value of the assets aggregating to ₹ 7,889.34 crores, including property plant and equipment of STPL as at 31 December 2021 and the consequential impact thereof on the accompanying consolidated financial results.

The Auditors in their Auditor's Review Report on Standalone Unaudited Quarterly Financial Results have brought out as below: The Company has a non-current investment of ₹ 1,211.82 crores (net of impairment provision of ₹ 1,814.40 crores) and inter corporate deposits (classified under current assets) of ₹26.05 crores recoverable from Sinnar Thermal Power Limited (formerly RattanIndia Nasik Power Limited) (STPL), a wholly owned subsidiary of the Company, as at 31 December 2021. The subsidiary company has incurred losses since its inception and is yet to commence operations. The accumulated losses in the subsidiary company amount to ₹ 9,098.60 crores as at 31 December 2021, and the management of the subsidiary company has determined that a material uncertainty exists as at 31 December 2021, that may cast significant doubt about the subsidiary company's ability to continue as a going concern. The management of the Company, based on an internal estimate, has recorded an impairment of ₹1,814.40 crores against carrying value of investment in STPL in earlier years. In the absence of adequate and appropriate evidence for such impairment assessment performed by the management and to support the appropriateness of the going concern assumption, we are unable to obtain sufficient appropriate evidence to comment on adjustments, if any, that may further be required to be made to the carrying value of the above mentioned non-current investment of ₹1211.82 crores and intercorporate deposits of ₹26.05 crores as at 31 December 2021 and the consequential impact thereof on the accompanying Statement."

Registered Office: A-49, Ground Floor, Road No. 4, Mahipalpur, New Delhi - 110037 CIN: L40102DL2007PLC169082

On behalf of the Board of Directors For RattanIndia Power Limited

Vibhav Agarwal **Managing Director**

www.readwhere.com

) अमालामेटेड कंपनी/

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक की सूचना और विज्ञापन

कांठ रोड, मरादाबाद-244001, उत्तर प्रदेश पर निम्नलिखित तरीके से आयोजित की जाएगी।

प्रॉक्सी द्वारा मतदान कर सकते है, बशर्ते कि निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रॉक्सी कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय मुरादाबाद धर्म काटा के पास, कांठ रोड, हरथला, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश - 244001, में इक्किटी शेयरधारकों की बैठक में कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा किए गए हों। प्रॉक्सी का फॉर्म कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा कम्पनी की वेबसाइट

पांडे, अधिवक्ता को उक्त बैठक (किसी भी स्थगन सहित) का अध्यक्ष नियुक्त किया है तथा उक्त बैठक या उसके किसी स्थान में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान का संचालन करने के लिए श्री शशि कांत गुप्ता, अभ्यासी कंपनी सचिव को संवीक्षक नियुक्त किया है। उपरोक्त योजना यदि इक्विटी शेयरधारकों की बैठक द्वारा अनुमोदित होती है तो टिब्युनल के अनुवर्ती अनुमोदन के विषयस्वरूप

उसे यह सूचना जानकारी मात्र के उद्देश्य से लेनी चाहिए।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि	
मतदान का प्रारंभ	गुरूवार, 27 जनवरी 2022 पूर्वाह 9:00 बजे (भा.मा.स.)
मतदान की समाप्ति	शुक्रवार, 25 फरवरी 2022 को अपराह 5:00 बजे (भा.मा.स.)
डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडि मतदान की सुविधा उन सम् नोटिस जारी किए जा रहे ह उनकी ईमेल skgupta1	कों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु एजेंसी के तौर पर सेंट्र् या) लिमिटेड की सेवाएं ली है। इसके अलावा, डाक मतपत्र के माध्यम र भी शेयरधारकों को भी दी जा रही है, जिन्हें भौतिक नोटिस या इलैक्ट्रॉनिव हैं। सभी भरे हुए और हस्ताक्षरित पोस्टल बैलेट फार्म संवीक्षक को अथव 903@gmail.com पर शुक्रवार 25 फरवरी, 2022 शाम 5 बजे से पहल ग सूविधा और पोस्टल बैलेट का उपयोग करके मतदान का तरीका नोटिस में